



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 439] नई दिल्ली, मृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 1982/आश्विन 8, 1904
No. 439] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 1982/ASVINA 8, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1982

का. आ. 699(अ) / 18-एए / आई डी आर ए/82 :—
केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 825(अ)/18-एए/आई डी आर ए/78 तारीख 23 दिसम्बर, 1976 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन मैसर्स कावेरी स्पनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड पुदुक्कोट्टी नामक औद्योगिक उपक्रम का पूर्ण प्रबन्ध 23 दिसम्बर, 1976 से पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया था और उक्त औद्योगिक उपक्रम प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए तमिलनाडु टेक्सटाइल कारपोरेशन को प्राधिकृत किया गया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश संख्या का. आ. 906(अ)/18-एए/आई डी आर ए/82 तारीख 22 दिसम्बर, 1981 द्वारा उक्त आदेश की अवधि छह मास की और अवधि के लिए अर्थात् 22 जून, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 437(अ)/18-एए/आई डी आर ए/82 तारीख 22 जून, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 30 सितम्बर, 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश, 31 मार्च, 1983 तक की और अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहना चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1983 तक की और अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 3(9)/81-सी. यू. एस.]

ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)
ORDER

New Delhi, the 30th September, 1982

S.O. 699(E)/18AA/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 825(E)/18AA/IDRA/

76 dated the 23rd December, 1976 (hereinafter referred to as the said order), the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Canvey Spinning and Weaving Mills Limited, Pudukkottai, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years from the 23rd December, 1976, and the Tamil Nadu Textile Corporation was authorised to take over the management of the whole of the said industrial undertaking;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 906(E)/18AA/IDRA/81, dated the 22nd December, 1981, the period of the said Order was extended for a further period of six months upto and inclusive of the 22nd June, 1982;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Deve-

lopment) No. S.O. 437(E)/18AA/IDRA/82, dated the 22nd June, 1982, the period of the said Order was extended upto and inclusive of the 30th September, 1982;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 19AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1983.

[F. No. 3(9)/81-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.